



**राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक**

साआधिकार प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

भाद्र 5, मंगलवार, शाके 1941 अगस्त 27, 2019

Bhadra 5, Tuesday, Saka 1941—August 27, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur August 14, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/ 7618 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal officer Municipal Council Balotra has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Council Balotra. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal officer.

By Order,
Ujjwal Rathore,

Joint Secretary to Governement.

कार्यालय नगरपरिषद्, बालोतरा (बाड़मेर)

| क्र.सं. | वार्ड सं. | नवगठित वार्डों के सीमांकन का विवरण |
|---------|-----------|--|
| 1 | 1 | पुरुषोत्तम मास्टर के मकान से उत्तर की ओर चलकर गंदे नाले तक व गंदे नाले के साथ—साथ पश्चिम की ओर चलते हुए दक्षिणी भाग को सम्मिलित करते हुए मगजी की ढाणी तक व मगजी की ढाणी से नगरपरिषद् सीमा के साथ—साथ जेरला रोड पर दक्षिण की ओर चलते हुए गुलाब डार्इग से पूर्व की ओर चलते हुए पीछे पुरखाराम चारण के मकान तक व पूर्व की ओर चलते हुए बालाजी आयरन हैण्डीक्राफ्ट होते हुए पुरुषोत्तम मास्टर के मकान तक का समस्त क्षेत्र |
| 2 | 2 | विश्वकर्मा जांगिड़ समाज समिति से उत्तर में चलते हुए राजू पालीवाल से पश्चिम की तरफ चलते हुए शिवलाल प्रजापत को शामिल करते हुए रामकाराम जाट से गुलाब डार्इग से दक्षिण की ओर जेरला रोड (गुलाब डार्इग) से सुलेमान जी गैला से उत्तर की ओर से तेजसिंह के मकान से पूर्व की ओर रतनजी प्रजापत के मकान से उमाशंकर अग्रवाल के मकान से पूर्व की ओर विश्वकर्मा जांगिड़ समाज समिति तक का समस्त क्षेत्र |
| 3 | 3 | अशोक डागा के प्लाट से पूर्व की ओर चलते हुए गोविन्दराम प्रजापत के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए कुनानंदजी शर्मा बाबुलाल सुथार से पूर्व की ओर चलते हुए पुखराज सोनी से उत्तर की तरफ जगदीश घांची से उत्तर की ओर राणाजी जोशी की दुकान से दक्षिण की तरफ रामलाल सुथार से चुन्नीलाल प्रजापत से पश्चिम की ओर हरसभ भवन होते हुए जेरला रोड पर पश्चिम की ओर चलते हुए प्रीति कॉलोनी रोड होते हुए दोनों तरफ के क्षेत्र को |

| | | |
|---|---|---|
| | | शामिल करते हुए अशोक डागा के प्लॉट तक समस्त क्षेत्र। |
| 4 | 4 | शिव मन्दिर से पश्चिम की ओर चलते हुए रेल्वे लाईन के साथ साथ होते हुए महावीर कॉलोनी, गोगाजी मन्दिर एवं सीईटीपी सम्मिलित करते हुए नगर परिषद सीमा तक एवं उत्तर की ओर नगर परिषद सीमा के साथ साथ चलते हुए जेरला रोड तक एवं वापस जेरला रोड पर दक्षिण की ओर चलते हए प्रीति कॉलोनी रोड से पश्चिम की ओर चलते हुए औधोगिक क्षेत्र सम्मिलित कर बाड़मेर कलेण्डर रोड तक व पूर्व की ओर चलते हुए बाड़मेर कलेण्डर से दक्षिण की ओर चल कर वापस शिव मन्दिर तक समस्त क्षेत्र। |
| 5 | 5 | रेलवे फाटक नम्बर 3 मुन्नाभाई के मकान से पश्चिम की तरफ चलते हुए नगरपरिषद् सीमा ओमप्रकाश खीमजी माली तक वापस सीमा—सीमा दक्षिण की तरफ चलते हुए मसराजी माली इन्द्रा जाट के मकान रामदेव कॉलोनी, जीवगर महाराज का मन्दिर होते हुए पूर्व की तरफ त्यागीजी की कुटीया होते हुए भरत आजाद की भूमि होते हुए वापस उत्तर की ओर चलते हुए अग्रवाल भवन के सामने नरेश पाटोदी तक वापस पश्चिम—उत्तर की तरफ चलते हुए रेलवें फाटर नम्बर 3 तक इस प्रकार बनने वाले क्षेत्र की समस्त आबादी। |
| 6 | 6 | गौतमचन्द चौपडा के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए अन्याव कॉम्प्लेक्स से युनिवर्सल कॉम्प्लेक्स से दक्षिण की ओर चलते हुए गौतमजी गोगड़ के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए सुमेरमल दाती के सामने खाली प्लॉट से बालकचन्द के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण की ओर चलते हुए श्री शांतिलाल के सामने वाले मकान को शामिल करते हुए जीवराज माली से नदी किनारे तक रिद्धी—सिद्धी विहार से पश्चिम की ओर चलते हुए अग्रसेन भवन को शामिल करते हुए राजपथ गली से गौतमचन्द चौपडा के मकान तक का समस्त क्षेत्र |
| 7 | 7 | शान्तिलाल के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए सुमेरमल के मकान से पूर्व में चलकर मांगीलाल के मकान से उत्तर की ओर अन्याव कॉम्प्लेक्शन से रेल्वे लाईन तक एवं पूर्व की ओर चलते हुए मूले खां से गंगा बाई मंदिर को शामिल करते हुए गोविन्दराम गीगाराम भवन को शामिल करते हुए पूर्व में ताराचन्द मेघवाल के मकान से दक्षिण में चलते हुए पवन शापिंग सेन्टर से गौशाला को शामिल करते हुए नदी किनारे तक नदी किनारे से नगरपरिषद् सीमा के साथ—साथ दक्षिण की ओर से चलते हुए शांतिलाल के मकान तक का समस्त क्षेत्र |
| 8 | 8 | नेशनल अपार्ट से उत्तर की ओर चलने हुए शिव मंदिर पूनमजी का मकान से पूर्व ओर चलते हुए सत्यनारायण जी के मंदिर तक व दक्षिण की ओर चलकर मोहमद घोषी के मकान को सम्मिलित करते हुए पालिवालों के मंदिर होते हुए भैरूजी के थान तक व वापस पश्चिमी की ओर चलकर पूनमजी के मकान तक समस्त क्षेत्र। |
| 9 | 9 | न्यु तेरापंथ भवन से पुराना सिनेमा हॉल से रेलवे लाइन—लाइन चलते हुए हस्तीमल जैन वापस पूर्व की तरफ चलते हुए हनुवंत सराय को सम्मिलित करते हुए राणजी घांची के मकान वापस दक्षिण की तरफ चलते हुए हस्तीमल जी मास्टर से पश्चिम की ओर चलते हुए सोनाराम जी गजधर के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए घेरजी सड़ली वाले के मकान से गोरखनाथी |

| | | |
|----|----|--|
| | | मेघवाल, छगनलाल, छोगलाल औसवाल, नारायण जी, गोगा, गणपत जी मेहता, जसराज जी ओसवाल, फरसाराम, भोमाराम चौपडा सम्मिलित करते हुए पश्चिम की ओर चलते हुए घेवरजी जागसा वालों के मकान मेगराज मेहता व दक्षिण की ओर चलते हुए नन्दलाल पालीवाल से पूर्व की ओर चलते हुए रणजीतपुरी के मकान तक व उत्तर की ओर चलते हुए लालचन्द पुनीता व ओकार जी वादी उत्तर की ओर चलते हुए गोरधन जी के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए मालियों की बगीची सम्मिलित करते हुए न्यु तेरापंथ भवन तक समस्त क्षेत्र। |
| 10 | 10 | वृन्दावन बगेची से नदी किनारे—किनारे चलते हुए गायत्री मन्दिर, वानर देव मन्दिर से वापस उत्तर की तरफ चलते हुए छत्रियों पुरानी पानी टंकी, पुरोहितों का वास से पनघट रोड होते हुए बढ़ी सुनार के मकान होते हुए जीनगरों का रामदेव मन्दिर, पीरदानजी का वास, जूनी धान मण्डी से हस्तीमल महेन्द्र कुमार, सायर थाना होते हुए बलदेवजी की पोल धोरे पर महेश शर्मा के मकान से रोड़—रोड़ चलते हुए लालजी की कोटड़ीया वन खण्डी महादेव मन्दिर होते हुए वृन्दावन बगेची तक इस प्रकार बनने वाले क्षेत्र की समस्त आबादी। |
| 11 | 11 | मद्रास फेन्सी से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलते हुए महेश स्वीट होम, जूना कोट को सम्मिलित करते हुए मोहन पान वाले की दुकान से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलते हुए गणेशजी की पोल शिव एजेन्सी अग्रवाल प्याऊ, पुराना एस.बी.बी.जे.बैंक, लूणजी डीडवानिया, माणक झाडाणी के मकान से छोगाजी दर्जी से अमृतलाल सिघवी से होते हुए लालजी भाकर रामचन्द्र कंसारा, जेठमल कोठारी का पुराना मकान, पुरानी 2 नं. स्कूल खीमजी गोल वाला, भवरजी सुनार से दक्षिण की तरफ चलते हुए चम्पालाल आचार्य के सामने गोतम चौपडा के मकान से पूर्व की तरफ चलते हुए गोतम अणची चुड़ीगरों का वास होते हुए पारस्स फर्जी से यज्ञनेश्वरजी श्रीमाली से राणजी की पोल श्रीमालीयों का चौक, जबरनाथ महादेव मन्दिर, लालजी मन्दिर, सामीयों की मण्डी के सामने बस्तीमलजी के मकान से मद्रास फेन्सी तक इस प्रकार बनने वाले क्षेत्र की समस्त आबादी। |
| 12 | 12 | गोपाल जी राजपुरोहित की दुकान से उत्तर पश्चिम की तरफ चलते हुए लेखाजी धाची, ज्ञानजी बाबूजी, शंकरलालजी वकीलसा मेहता, चनणाराम दर्जी, नाईयों की वास को सम्मिलित करते हुए प्रतापजी जोशी के मकान से शंकर संलुदिया के मकान होते हुए कलावा वालों की पोल को सम्मिलित करते हुए कबीर आश्रम, सवारों की कोठड़ियों, माधव वालों का मकान, कृष्ण हार्डवेयर से दक्षिण की तरफ चलते हुए बालाजी मन्दिर से मोहन सिंधी सुनार, प्रेम प्रिन्टिंग होते हुए भवंतलालजी खारवाल के मकान से मेंगवालों का चबुतरा को सम्मिलित करते हुए केसरीमलजी जाटोल के मकान के सामने घमण्डारामजी जटिया के मकान से गोपालजी राजपुरोहित की दुकान तक इस प्रकार बनने वाले क्षेत्र की समस्त आबादी। |
| 13 | 13 | भाजपा गारमेंट से उत्तर पश्चिम की तरफ चलते हुए चौथमलजी भंसाली वकील से गणेशराजजी के मकान से गणेशराजी भण्डारी से सिरेमलजी प्रजापत, बाठीया जी की मकान को सम्मिलित करते हुए गोतमजी पन्ना वालों से उत्तर पूर्व की तरफ चलते हुए युसुफ भातगर से रुगनाथजी मन्दिर तक के सामने |

| | | |
|----|----|---|
| | | हनुमानजी बजरंग त्रिकाल ज्योति, को सम्मलित करते हुए नाकोड़ा ज्वेलर्स भीखा मराज वाली गली होते हुए महा लक्ष्मी मन्दिर होते हुए हुलास बाफना से पिताम्बर खत्री की दुकान से भाजपा गारमेंट तक इस प्रकार बनने वाले क्षेत्र की समस्त आबादी। |
| 14 | 14 | झूंगरमलजी कोठारी वकील के मकान से पूर्व की तरफ चलते हुए नाईयों का मन्दिर होते हुए आगरा होटल तक वापस साने अरबन बैंक (गौर का चौक) शाखा से पूर्व की तरफ चलते हुए कब्रिस्तान को सम्मलित करते हुए पंचायत समिति परिसर पटवार भवन से नगीना मस्जिद तक, रामदास उदयराम के गोदाम के पिछे—पिछे कालूराम मेघवाल के प्लॉट को सम्मलित करते हुए नगीना मस्जिद से उत्तर की तरफ जीनगर समाज बगेची, बनु माता मन्दिर से हेमन होटल ताबूतो का चौक से जगदीश जी सुनार की गली को सम्मलित करते हुए पनघट रोड अमोलकजी की दुकान से मुकन प्याउ से वापस ताबूतो का चौक तक भवरजी दाणी से रावत पान के सामने नरपतसिंह डॉ. पी.सी. जैन वकील से उत्तर की तरफ मेघवालों का वास सम्मलित करते हुए झूंगरमल जी वकील तक इस प्रकार बनने वाले क्षेत्र की समस्त आबादी। |
| 15 | 15 | मगनमल सिन्धी के मकान से मनमोहन स्वीट हॉम, पुरानी सब्जी मण्डी, पुराना बस स्टेण्ड, सम्पत पान भण्डार के पिछे से फाटक नम्बर 1 तक वापस दक्षिण की तरफ चलते हुए कांकरीया बिल्डिंग, शिव वाडी, गर्ल्स कॉलेज, मुरलीधर ईश्वरदास जी का पेट्रोल पम्प से जयराम मिस्त्री, रामसिंह वकील, बाड़मेर सैन्ट्रल बैंक होते हुए सोलंकीयों का वास होते हुए रणजीत आश्रम से हेमनदास की चक्की तक, कसाईयों के मोहल्ले को सम्मलित करते हुए भवरलाल सुंगा की दुकान से मंगलदीप एम्पोरियम, टिकम खियानी का मकान, चारण मार्केट का पिछला हिस्सा सम्मलित करते हुए सामने जेठानन्द चारण का अस्पताल होते हुए पृथ्वीसिंह वकील साहब का मकान होते हुए विरुमल सिन्धी का मकान, पुराना भेड़ ऊन विभाग होते हुए चन्दनमल दाती के मकान से मगनमल सिन्धी के मकान तक इस प्रकार बनने वाले क्षेत्र की समस्त क्षेत्र |
| 16 | 16 | खेड़ रोड पर मेघवाल समाज से उत्तर की ओर डागा होस्पीटल होते हेतु बाड़मेर कलेण्डर तक सड़क के दोनों तरफ का आबादी क्षेत्र शामिल करते हुए मांगीलाल ओसवाल को सम्मलित करते हुए पूर्व की ओर रास्ते—रास्ते चलते हुए भवरलाल राणजी घाची के मकान तक वापस दक्षिण की तरफ चलते हुए वापस महेन्द्र फोटो स्टूडियों वाले शर्माजी के मकान से होते हुए बाबूजी सराफ के मकान को सम्मलित करते हुए रेलवें लाईन तक वापस पश्चिम की तरफ चलते हुए रेलवें लाईन—लाईन घाची समाज रामदेव मन्दिर, नारायण पुनमजी घाची के मकान को सम्मलित करते हुए वापस खेड़ रोड नरसिंगजी घाची तक इस प्रकार बनने वाले क्षेत्र की समस्त आबादी |
| 17 | 17 | मदन जी लुकड़ से पूर्व की ओर चलते हुए मेहता होस्पीटल के सामने वाले खाली प्लॉट को शामिल कर दक्षिण की ओर चलते हुए आयकर भवन को शामिल कर पूर्व की ओर चलते हुए जोधपुर रोड पर गुप्ता ट्रांसपोर्ट से दक्षिण की ओर चलते हुए मोलाना अब्दुल कलाम स्कूल को शामिल कर रेल्वे लाईन तक रेल्वे लाईन से उत्तर की ओर चलते हुए नाहटा होस्पीटल को शामिल कर |

| | | |
|----|----|--|
| | | राम कुटिया के पास सदाराम जाट से उतर की ओर चलते हुए गोतम जी के प्लाट को शामिल करते हुए सुरेश अग्रवाल के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए बाईसा के मन्दिर को शामिल कर उतर दिशा में चलते हुए मदन जी लुकड़ के मकान तक |
| 18 | 18 | ओ पी व्यास से दक्षिण की ओर चलते हुए इन्टेक भवन से पश्चिम भवन की ओर चलते हुए मारुती 100 दुकान से उतर की ओर चलते हुए सफी भाई घोसी के मकान से उतर की ओर खीमाराम पालीवाल से पश्चिम की ओर चलते हुए दाणी की फेकट्री से उतर की ओर कुरेशी भाई से उतर की ओर चलते हुए अजीज भाई के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए याकुब भाई के मकान से उतर की ओर चलते हुए मुली देवी के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए भंवर भाटी के मकान को शामिल करते हुए भेराराम मेघवाल से दक्षिण में चलते हुए हाजी अब्बास के मकान से पश्चिम में चलते हुए कपड़े के बाड़ा को शामिल करते हुए नखतमल खत्री से धनराज खत्री से पूर्व की ओर चलते हुए ओपी व्यास के मकान तक |
| 19 | 19 | रामचन्द्र के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए बालकनाथ सुथार के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए दर्शन भाई मिस्त्री के मकान से उत्तर की ओर गोपालजी माली के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए रामदेव फैन्सी एण्ड जनरल स्टोर से दक्षिण की ओर चलते हुए जाहनवी हास्पिटल को शामिल करते हुए नगरपरिषद् सफाई कैम्प कार्यालय से पश्चिम की ओर चलते हुए न्यू व्हाईट हास्पिटल को शामिल करते हुए रामलाल गुजराती के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए रामचन्द्र के मकान तक का समस्त क्षेत्र |
| 20 | 20 | राणाराम राईका के पास खाली प्लाट से पश्चिम की तरफ चलते हुए भंवर प्रजापत से पीके इर्झिंग से पश्चिम की ओर रामचन्द्र ढाका से दक्षिण की ओर चलते हुए मुसलमानों की फेकट्री से दक्षिण की ओर चलते हुए महावीर नगर द्वितीय रोयल कॉलोनी को शामिल करते हुए मालजीमल से दक्षिण की ओर भेरजी सियाग से पूर्व की ओर चलते हुए पन्नालाल जोशी से भेरजी बाफना से उतर की ओर चलते हुए मनोहर जी तापड़िया से युसुफ पादरू वाले से डुंगर माली की दुकान से उतर में चलते हुए प्राईमरी स्कुल को समिलित करते हुए भाकर देवासी से पश्चिम की ओर चलते हुए गलाराम से राणाराम राई के मकान तक |
| 21 | 21 | श्री जगदीशप्रसाद गौड के मकान के उत्तर की तरफ चलते हुए अजाराम घांची के प्लाट तक। वापस उत्तर-पूर्व की तरफ चलते हुए जोगाराम घांची का मकान समिलित करते हुए मदन खारवाल के प्लाट तक वापस उत्तर-पश्चिम की तरफ चलते हुए हनुमान चौधरी का प्लाट समिलित करते हुए पीराराम घांची का मकान शामिल करते हुए मिसराजजी घांची के मकान तक, वापस पश्चिम की तरफ चलते हुए शंकर सुथार के मकान तक। वापस पश्चिम की तरफ चलते हुए भूरदानजी का मकान शामिल करते हुए हरीभगवान का प्लाट को लेते हुए तरफ दक्षिण में रास्ता-रास्ता चलते हुए मोहन से जबरदस्त हनुमान मन्दिर तक। वापस दक्षिण की तरफ हुसेनजी चढ़वा के मकान तक। वापस पूर्व-उत्तर की तरफ चलते हुए जगदीशप्रसाद गौड के मकान तक इस |

| | | |
|----|----|--|
| | | प्रकार बनने वाली सर्किल की समस्त आबादी। |
| 22 | 22 | मोहनलाल लखारा के उत्तर से चलते हुए जीतमल सुथार को शामिल करते हुए श्री पीपलेश्वर महोदय मंदिर से गन्दे नाले को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर चलते हुए गन्दे नाले के उत्तर की ओर चलते हुए भगाराम के खाली प्लॉट को शामिल करते हुए राणाराम देवासी के मकान को शामिल करते ही पूर्व में चलते हुए सरताराम देवासी के मकान को शामिल करते हुए श्री लक्ष्मण, ग्राम सेवक के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए डुंगर माली के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए मोहनलाल के मकान तक का समस्त क्षेत्र |
| 23 | 23 | गुलाब जी प्रजापत के मकान से पूर्व की तरफ चलते हुए श्री लक्ष्मण धांची के मकान से उत्तर की तरफ चलते हुए तगाराम जाट से पूर्व की ओर चलकर मगराज प्रजापत के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए सेवाराम खत्री का मकान शामिल करते हुए आरसीसी वालों के प्लोट से बस स्टैण्ड चौराहे तक एवं गन्दे नाले के साथ साथ उत्तर की ओर चलते हुए सार्वजनिक शोचालय होते हुए वापस गन्दे नाले के साथ साथ पश्चिम की तरफ चलते हुए दक्षिण की ओर रामलाल सुथार के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए सेवाराम खत्री के मकान को शामिल करते हुए मगराज प्रजापत के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए तगाराम जाट को शामिल कर उत्तर की ओर चलते हुए चुन्नीलाल पुत्र शंकरलाल से सीधा चम्पालाल के प्लाट को शामिल करते हुए पारस लौहार को शामिल करते हुए गुलाबजी प्रजापत के मकान तक का समस्त क्षेत्र |
| 24 | 24 | मोहम्मद खिलेरी की दुकान से दक्षिण की ओर होलामल सिंधी से पश्चिम की ओर भंवर जी भाटी के मकान से हनुमानाराम से दक्षिण की ओर चलते हुए समसुदीन छीण से पश्चिम की ओर जमाल भाई चड़वा डीस्क वाला के मकान से उत्तर की ओर मुलाराम के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए हनुमानाराम से पश्चिम में चुन्नीलाल प्रजापत से उत्तर की ओर जवानाराम से पूर्व की ओर चलकर टिकमाराम का खाली भूखण्ड शामिल करते हुए सोनी शोकर रिपेयर से उत्तर की ओर सिंधी के भुखण्ड को शामिल कर मिलन होटल व गन्दे नाले को शामिल कर दक्षिण की ओर चलते हुए भरतसिंह पुरोहित के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए एम आर टेंट से पश्चिम की ओर चलते हुए महेश किराणा स्टोर से दक्षिण की ओर चलते हुए गोविन्द श्रीमाली के मकान को शामिल करते हुए किशोर से पूर्व की ओर उकाराम से पूर्व की ओर चलते हुए मोहम्मद खिलेरी की दुकान तक का समस्त क्षेत्र |
| 25 | 25 | जगदीश जीनगर से उत्तर की ओर चलते हुए घेवर जी कलाल से खम्भा निवास से उत्तर की ओर महेन्द्र रमण को शामिल करते हुए डॉ सुनिल गुप्ता के प्लाट से पश्चिम की ओर जीआर भील को शामिल करते हुए धांची के खाली प्लॉट से पश्चिम की ओर चलते हुए नेमीचंद मेवाड़ा से दक्षिण की ओर चलते हुए हेमराज प्रजापत को शामिल करते हुए उकाराम के सामने खाली प्लाट से पूर्व की ओर चलते हुए जगदीश जीनगर के मकान तक का समस्त क्षेत्र |
| 26 | 26 | सीमेन्ट गोदाम से पश्चिम की ओर चलते हुए श्री गुलाम रसूल घोसी के मकान |

| | | |
|----|----|--|
| | | से उत्तर की ओर चलते हुए महावीर इन्टरनेशनल, एलआईसी. ऑफिस को शामिल करते हुए गन्दे नाली को पार कर कालू भाई कुरेशी के मकान को शामिल करते हुए उकाराम के मकान से पूर्व में रसीद भाई उसमान भाई फारुक भाई जोधपुर रोड़, ओ.एस.मोटर्स तक, ओ.एस.मोटर्स से दक्षिण में चलते हुए सीमेन्ट गोदाम तक का समस्त क्षैत्र |
| 27 | 27 | किशनलाल, मधाराम के सरकारी क्वार्टर से पश्चिम की ओर चलते हुए रामचन्द्र की दुकान से दक्षिण की ओर चलते हुए गिरधारी घांची से फजल जी के मकान से पूर्व में चलते हुए श्री रविन्द्र जैन से दक्षिण की ओर चलते हुए भगतसिंह सर्कल को शामिल करते हुए पूर्व में चल कर अर्जुनलाल के मकान से किशनलाल के क्वार्टर तक का समस्त क्षैत्र |
| 28 | 28 | मूंगड़ा रोड पर पानी की टंकी से कृषि उपज मण्डी की दिवार के साथ साथ दक्षिण से पश्चिम की ओर चलते हुए नूरी मुसलमान को शामिल करते हुए बकरों के बाडे के पश्चिम हिस्से से उत्तर की ओर चलते हुए जोधपुर रोड पर श्री अशोक महाराज के मकान से पूर्व की ओर मूंगड़ा रोड पर चलते हुए पानी की टंकी तक का समस्त क्षैत्र |
| 29 | 29 | मनोज हेयर ड्रेसर से गुलाब चंदेल को शामिल करते हुए पूर्व में खेताराम हरिजन के मकान से महेन्द्र मेवाड़ा से उत्तर की ओर चलते हुए धर्मेन्द्र के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए तेजाराम नाई के मकान विधुत पोल नं. एन1/71 से उत्तर की ओर ईश्वर प्रजापत के खाली प्लोट से पूर्व की ओर चलते हुए बाबू प्रजापत से दक्षिण की ओर चलते हुए जीरो फाटक पार कर मुरलीधर ईश्वर दास से पश्चिम की ओर गोपालदास चारण से रेल्वे बाटण्डी के साथ साथ प्रथम रेल्वे क्रोसिंग नयनसुख खटिक से उत्तर की ओर चलते हुए मनोज हेयर ड्रेसर तक का समस्त क्षैत्र |
| 30 | 30 | मुकेश ट्रेडर्स से पूर्व की ओर चलते हुए खुबजी खण्डेलवाल के मकान को शामिल करते हुए उत्तर की ओर चलते हुए वानर चौक शामिल करते हुए जगदीश होताराम के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए अचला गहलोत को शामिल करते हुए राजेन्द्र गहलोत के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए ज्योति माली के मकान समदड़ी रोड़, जगदम्बा मंदिर से पश्चिम की ओर से रेल्वे क्रांसिंग के साथ-साथ डाक बंगला तक एवं दक्षिण की तरफ पुलिस थाना सम्मिलित करते हुए मुकेश ट्रेडर्स तक का समस्त क्षैत्र |
| 31 | 31 | माली शमशान घाट से पश्चिम की ओर चलते हुए श्री हरिदास सर्किल से उत्तर की ओर चलते हुए राणजी हंसाजी के मकान को शामिल करते हुए मुकेश ऑटो रिपेयर से पूर्व की ओर चलकर मांगीलाल राजपुरोहित के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए हनुमानजी मंदिर को शामिल करते हुए हरिराम जी माली के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए बाबुजी रामाजी के मकान से दक्षिण दिशा में पारसजी चौहान के मकान को शामिल करते हुए मुलतान घांची की दुकान से पूर्व की ओर चलकर राणपुरी के मकान से दक्षिण की ओर छगनलाल माली के मकान से तलकाजी दीपाजी की बाड़ी से होते हुए उत्तर पूर्व की ओर माली समाज शमशान घाट तक का समस्त क्षैत्र |
| 32 | 32 | बेरा खारोडिया, अल्लाबक्श का बेरा, पालीवालों का बेरा, लोमड़ी बेरा, सांकरना बेरा, भक्तों का बेरा से रामजी के बेरे तक। पुराना चौंच मन्दिर को सम्मिलित |

| | | |
|----|----|---|
| | | करते हुए नदी के दक्षिण-पश्चिम स्थित समस्त वेरो को सम्मिलित करते हुए इस प्रकार बनने वाले क्षेत्र की समस्त आबादी। |
| 33 | 33 | नदी किनारे से उत्तर की ओर मंगलाराम टांक की फैकट्री, पुराना गैर का चौक, गुमनाजी की वाड़ी को शामिल करते हुए हंजारी जी गुमनाजी की दुकान से पश्चिम की ओर चलते हुए राजाराम छात्रावास के आगे होते हुए दक्षिण की ओर चलकर सजनी बाई आश्रम की गली में खाली भूखण्ड से पूर्व की ओर गुमनाराम जाट के मकान से दक्षिण को चलते हुए दीपाराम जाट के मकान, हनुमान जी के मंदिर से दक्षिण की ओर चलते हुए नाथूसिंह माली के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रेम जी पंवार के मकान से हंजारीमल टांक के मकान रा.प्रा.विद्यालय से मोटाराम माली की दुकान से दक्षिण की ओर चलते हुए मोड़जी चौधरी के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए बी.आर.इन्टरनेशनल स्कूल, बंशीलाल का मकान शामिल करते हुए पूर्व की ओर चलकर हरिजन शमशान घाट से नदी किनारे तक का समस्त क्षेत्र |
| 34 | 34 | जोरावरसिंह के मकान से दक्षिण की ओर चलकर माली समाज भवन से पूर्व की ओर चलते हुए रूपजी गणेशजी के मकान को शामिल करते हुए तगजी भैराजी के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए सताराम जाट से पश्चिम की ओर चलकर बाबूसिंह, आर.आई के प्लॉट से उत्तर की ओर समदड़ी रोड़ पर बाबुजी प्रजापत के मकान से पश्चिम की ओर चलकर जोरावरसिंह के मकान तक का समस्त क्षेत्र |
| 35 | 35 | तेजसिंह के प्लॉट से पश्चिम की ओर चलते हुए आशीष सोनी की दुकान से दक्षिण की तरफ चलते हुए आर्य समाज विद्यालय को शामिल करते हुए पुराना गैर का चौक से पूर्व की ओर चलते हुए मयूर स्कूल, सुजाराम माली के मकान से उत्तर की ओर से तेजसिंह के प्लॉट तक का समस्त क्षेत्र |
| 36 | 36 | समदड़ी रोड़ पर मोहनराम की प्याऊ से पूर्व की ओर एम.आई.फैकट्री रुघजी जाट के मकान से इन्द्रा चारण के मकान के पास खाली प्लाट से दक्षिण की तरफ चलते हुए सोनाराम माली के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए भवं जी सब्जी वाले के मकान को शामिल करते हुए नक्शे अनुसार खाली प्लॉट से दक्षिण की ओर चलते हुए मुकेश माली के मकान को शामिल करते हुए नदी तक, नदी के साथ पश्चिम की ओर चलते हुए उत्तर की ओर रामाजी की वाड़ी को शामिल करते हुए पूर्व की ओर जगदीश गहलोत के प्लॉट से घेर जी की दुकान को शामिल कर उत्तर की ओर चलते हुए मोहनराम की प्याऊ तक का समस्त क्षेत्र |
| 37 | 37 | नगरपरिषद् सीमा से पश्चिम की ओर बाईपास पुल के नीचे से पानी की टंकी, राघवदास आश्रम को शामिल करते हुए लहर भारती का खाली प्लॉट से दक्षिण की ओर चलते हुए पेमजी माली के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए मिश्राजी माली की वाड़ी से दक्षिण की ओर चलते हुए नदी किनारे तक व नदी के साथ-साथ पूर्व की ओर चलते हुए नगरपरिषद् सीमा तक का समस्त क्षेत्र |
| 38 | 38 | देवजी नमकीन से पूर्व की ओर चलते हुए नगरपरिषद् सीमा तक नगरपरीषद् सीमा से उत्तर की ओर चलते हुए अशोका लिलेण्ड से पश्चिम की ओर निमार्णधीन मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए सामुदायिक भवन को शामिल करते हुए जोराराम भील के मकान को शामिल करते हुए राणाराम भील से |

| | | |
|----|----|---|
| | | पश्चिम की ओर चलते हुए लोहारों का बाड़ा से दक्षिण की ओर चलते हुए जिरो फाटक रेल्वे क्रोसिंग पार कर प्रकाश माली को शामिल करते हुए देवजी नमकीन तक का समस्त क्षेत्र |
| 39 | 39 | कोजी किड्स स्कूल से पश्चिम की ओर चलते हुए पारसमल प्रजापत से दक्षिण में चलते हुए नरपत सिंह से पश्चिम की ओर चलते हुए दिपाराम मुड के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए मुंगडा रोड पर वरदाराम जाट से पूर्व की ओर चलते हुए अब्बु भाई की दुकान को शामिल करते हुए नगरपरिषद् सीमा तक नगरपरिषद् सीमा से अशोका लिलेण्ड के सामने वाले खाली भूखण्ड को शामिल कर सेंटजेवीयर स्कूल को शामिल करते हुए अजमाराम मास्टर के खाली भूखण्ड से दक्षिण की ओर चलते हुए चेलाराम भील से पश्चिम की ओर चलते हुए मांगीलाल भील से दक्षिण की ओर चलते हुए कोजी किड्स तक का समस्त क्षेत्र |
| 40 | 40 | शिव चौराहे से जोधपुर रोड होते हुए महादेव भोजनालय से पूर्व की ओर चलते हुए भाण्डियावास रोड पर भीम जी जाट के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए सम्शुदीन सराय से पूर्व की ओर चलते हुए गणपतदास संत को शामिल कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की दक्षिण दिवार के साथ साथ पूर्व की ओर चलते हुए जज कॉलोनी के पश्चिमी दिवार के साथ साथ माजिसा कॉलोनी को सम्मिलित करते हुए राजु खां से पश्चिम की ओर चलते हुए जोधपुर रोड पीडब्ल्युडी ऑफिस से उत्तर की ओर चलते हुए शिव चौराहे तक का समस्त क्षेत्र |
| 41 | 41 | बालाजी जनरल स्टोर से पूर्व की ओर चलते हुए जज कॉलोनी व गेमना गाजी दरगाह को शामिल करते हुए नगरपरिषद् सीमा तक एवं नगरपरीषद् की सीमा के साथ साथ उत्तर की ओर चलकर वापस पश्चिम की ओर इस्माईल को शामिल करते हुए जरकेश्वर बगीची को सम्मिलित करते हुए भाण्डियावास रोड पर सामुदायिक केन्द्र (वागरी समाज) के दक्षिण की ओर चलते हुए ताजाराम भील को शामिल करते हुए हाजी खमिश खां तेली से पूर्व की ओर राजकीय माध्यमिक विद्यालय को शामिल कर जज कॉलोनी की पश्चिमी दिवार से दक्षिण की ओर चलते हुए बालाजी जनरल स्टोर तक का समस्त क्षेत्र |
| 42 | 42 | मालानी होटल से जोधपुर रोड पर उत्तर की ओर चलते हुए नगरपरिषद् सीमा तक व नगरपरीषद् सीमा से पूर्व की ओर चलकर नगरपरिषद् सीमा से पश्चिम की ओर चलते हुए श्री मालाणी दशानन्द सन्यासी संस्थान को शामिल करते हुए जोगी बस्ती जोशी बस्ती व रतन विहार को शामिल करते हुए श्री भूराराम वकील से दक्षिण की ओर पारस भाटी से पश्चिम की ओर मलाणी होटल तक का समस्त क्षेत्र। |
| 43 | 43 | बीपीएल क्वार्टर ए2 से उत्तर की ओर फारुख भाई चडवा से पूर्व की ओर चलते हुए जोधपुर रोड पर हनुमान प्रजापत से उत्तर की ओर चलते हुए एम आर ल्यूब्रीकेन्ट से पश्चिम की ओर खाली प्लाट से दक्षिण की ओर राजु शर्मा के मकान वाली सीधी रोड पर शेखर शर्मा से पूर्व की ओर तेली के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए जबराराम प्रजापत के मकान से पूर्व की ओर जेठाराम के खाली प्लोट से दक्षिण की ओर हेमा शंकर श्रीमाली को शामिल करते हुए विनोद सिंधी के दुकान को शामिल करते हुए अमराराम कम्पाउंडर से |

| | | |
|----|----|---|
| | | पूर्व की ओर चलते हुए बीपीएल क्वार्ट ए2 तक का समस्त क्षेत्र |
| 44 | 44 | आसुराम सुथार के प्लाट से उतर की ओर चलते हुए सांसी कॉलोनी समाज भवन को शामिल करते हुए डुंगर प्रजापत से राजु की चक्की से पश्चिम में तुलसीदेवी प्रजापत से उतर की ओर रावतसिंह चौहान से विधायक रोड से पूर्व की ओर भरत आजाद की कॉलोनी से चलते हुए जोधपुर रोड पर उतर की ओर नगरपरिषद् सीमा तक एवं सीमा के साथ साथ से पश्चिम की ओर चलते हुए वापस नगरपरिषद् सीमा से दक्षिण की ओर चलते हुए तखजी जाट के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए शंकर जी प्रजापत के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए रुप जी दर्जी के मकान से देवाराम प्रजापत गजु भील व फारुख सुमरो के मकान से पूर्व की ओर ब्राईट माईण्ड स्कुल से पश्चिम की ओर घेर घांची से बीपीएल क्वार्टर रोड से पूर्व की ओर चलते हुए आसुराम सुथार के प्लाट तक का समस्त क्षेत्र |
| 45 | 45 | जीनगर के मकान के सामने गंदा नाले के साथ साथ पश्चिम की ओर चलते हुए नगरपरिषद् सीमा तक व नगरपरिषद् सीमा के साथ साथ उतर की ओर चलकर नगरपरिषद् सीमा से वापस पूर्व की ओर चलते हुए भरत आजाद की कॉलोनी के ईडब्ल्युएस क्वार्टर से दक्षिण की ओर चंद्रु प्रजापत हिरालाल प्रजापत व पप्पु संत पानी की टंकी से पूर्व छोर होते हुए जीनगर के मकान के पास गन्दे नाले तक का समस्त क्षेत्र |

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।